

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे.नो/12/2018

दिनांक : 29 जनवरी, 2018

प्रेस नोट

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विदेशी प्रतिनिधियों ने आईआईआईडीईएम परिसर का दौरा किया।

25 जनवरी, 2018 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) ने द्वारका, दिल्ली में आगामी अत्याधुनिक परिसर में निर्वाचन प्रबंधन निकायों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से विदेशी प्रतिनिधियों के लिए विशेष दौरे का आयोजन किया। आस्ट्रेलिया, भूटान, गिनी, मोल्दोवा, जाम्बिया के गण्यमान्य व्यक्तियों तथा अन्तरराष्ट्रीय आईडीईए और आईएफईएस के प्रतिनिधियों ने परिसर का दौरा किया और आईआईआईडीईएम द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाओं के बारे में जाना।

नए आईआईआईडीईएम परिसर में प्रतिनिधि

उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुदीप जैन ने प्रतिनिधियों को नए आईआईआईडीईएम परिसर के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। विशेषताओं और सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए, श्री सुदीप जैन ने कहा कि परिसर में 1000 लोगों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की क्षमता है। परिसर में 450 व्यक्तियों की क्षमता वाली एक ऑडिटोरियम ब्लॉक है तथा इसमें एक हॉस्टल ब्लॉक भी है जिसमें 100 कमरों की व्यवस्था है। श्री जैन ने आईआईआईडीईएम के विजन, लक्ष्य और विभिन्न क्रियाकलापों को भी साझा किया तथा प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन प्रबंधन निकायों के अधिकारियों को अपने नए परिसर में क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों में भाग लेने तथा समूचे विश्व में बेहतर एवं व्यावसायिक रूप से प्रबंधित निर्वाचन कराए जाने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

दौरे का समापन प्रतिनिधियों द्वारा हरियाली और स्वच्छ वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु परिसर में पौधा रोपण के साथ हुआ।

ह./-

(पवन दीवान)

अवर सचिव